



# स मा चार

## कोरोना की चेन तोड़ना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी

### -विधानसभा अध्यक्ष ने देवतालाब में किया 50 बेड के कोविड अस्पताल का

#### शुभारंभ

भोपाल, 10 मई 2021। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। यह कहना है मप्र के विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम का। वह रीवा अंतर्गत देवतालाब में 50 बेड के कोविड अस्पताल के शुभारंभ समारोह में बोल रहे थे। यहां उन्होंने मदद के लिये 24 घंटे उपलब्ध होने का भरोसा दिलाते हुए विश्वास जताया कि हम सब मिलकर कोरोना को हराकर छोड़ेंगे। इस अवसर पर कलेक्टर टी इलैया राजा सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि प्रमुख रूप से मौजूद थे।

इससे पहले उन्होंने कोरोना संक्रमण नियंत्रण करने के लिये प्रशासनिक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समय पर लिये गये निर्णयों के कारण हम कोरोना से लड़ पा रहे हैं। उनका यहां कहना था कि हम सजगता का परिचय देते हुए प्रशासन द्वारा तय नियमों का पालन करते हैं तो न केवल स्वयं, बल्कि अपनों को भी इस भयावह संक्रमण से निकाल सकते हैं। इसके लिये धैर्य और संयम की जरूरत है। जिसका पालन हमें सामूहिक रूप से करवाना है। कोरोना संक्रमण के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही डबल माँक्स की जरूरत है। इसका पालन करना अनिवार्य है।

#### आपदा पीड़ितों में बांटी 4-4 लाख की मदद

एक दिवसीय विधानसभा क्षेत्र में प्रवास के दौरान विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने आकाशीय बिजली गिरने से दिवंगत परिवारों से मिले और प्रति परिवार 4-4 लाख की प्रशासनिक मदद बांटी। इनमें उमरिया व्योहरियन कला की गायत्री द्विवेदी और रोहणी प्रसाद द्विवेदी के नाम अहम हैं। बता दें कि बीते दिनों आकाशीय बिजली की चपेट में आने से इस परिवार के आशीष द्विवेदी और अमन द्विवेदी का देहावसान हो गया था। श्री गौतम इसके बाद डगडौआ भी पहुंचे और पूर्व सरपंच स्व. सर्वेन्द्र मिश्रा के निधन पर शोक संतुष्ट परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की।

वि.स./ज.स./21

(नरेन्द्र मिश्रा)

अवर सचिव